

April 18, 2025

BSE Limited

Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

BSE Scrip Code: 509874

ISIN: INE849C01026

Dear Sir/Madam,

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G- Block Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

NSE Symbol: SHALPAINTS

Sub: Intimation of Public Notice regarding Completion of dispatch of Postal Ballot Notice

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), please find enclosed copies of notice given to the members of the Company in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Rules issued thereunder, and the Listing Regulations, inter alia, informing them about the resolutions proposed to be passed by Postal Ballot notice through e-voting process only and details thereof.

The notice was published in the following newspaper on Thursday, April 17, 2025:

- Financial Express All Editions; and
- Jansatta Hindi Edition

Kindly acknowledge the receipt and take the same on records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Shalimar Paints Limited

Snehal Saboo Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A49811

Encl.: As above

Shalimar Paints Limited

Toll Free: 1800 103 6509 | E: askus@shalimarpaints.com | W: www.shalimarpaints.com

SHARAT INDUSTRIES LIMITED Corporate Identity Number: L05005AP1990PLC011276

Registered Office: Venkannapalem Village, T. P. Gudur Mandal, Nellore, Andhra Pradesh- 524 002 Corporate Office: Flat No. 4, Third Floor, Pallavi Apartments, No. 57/11, Old No. 29/TF4, HDFC Bank Compound, First Main Road, R.A. Puram, Chennai- 600 028

Tel. No.: +91 8897628787; E-mail: cs@sharatindustries.com; Website: www.sharatindustries.com Contact person: Mr. Ganesan Nilakanatan, Company Secretary and Compliance Officer

FIRST REMINDER CUM FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES ON WHICH CALL MONEY IS TO BE PAID

In terms of provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the relevant rules made thereunder, the First and Final Cal Notice has been issued to such persons who were holders of the partly paid shares as on February 07, 2025, being the Record

In this connection, the Rights Issue Committee of the Company ('Committee')duly authorized by the Board of Directors of the Company, by way of Circular Resolution passed on Tuesday, 15th April 2025, approved sending First Reminder cum Forfeiture Notice from time to time for payment of the First and Final Call amount of ₹23.25 (comprising ₹ 7.50 towards face value and ₹

15.75 towards premium) ("**Reminder-cum-Forfeiture Notice**") to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and Final Call Money remains unpaid for payment of such unpaid First and Final Call. Accordingly, sending of First-Reminder-Forfeiture Notice to all the members who have not paid the call money has been initiated

on 16th April 2025. The payment period is from Wednesday, 30th April 2025 to Friday, 09th May 2025 (both days inclusive). Eligible Shareholders shall send their First and Final Call Money by way of Demand draft payable at Chennai along with the completed payment slip by

Please note that, failure to pay the First and Final call Money within the period as mentioned above shall render the partly paid-up equity shares of the Company, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Act, the Article of Association of the Company and the Letter of Offer. The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to such members, if any, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company.

All correspondence in this regard may be addressed to Registrar to the Issue at below mentioned address:



Cameo Corporate Services Limited

Unit: Sharat Industries Ltd – Partly paid up to Fully paid up conversion

registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue.

Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai-600002 **Tel No.:** +91 44 4002 0700

E-Mail Id: rights@cameoindia.com Investor Grievance E-Mail Id: investor@cameoindia.com

Website: www.cameoindia.com Contact Person: Ms. K. Sreepriya

SEBI Registration No.: INR000003753

For **SHARAT INDUSTRIES LIMITED** Sd/-

N. GANESAN

COMPANY SECRETRAY & COMPLIANCE OFFICER

AMRAPALI FILMS LIMITED

CIN: L92111WB1975PLC030251;

Registered Office: 3D, Duckback House, 41, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700017 Corporate Office: Mona. 70 MM Premises. East Gandhi Maidan. Patna - 800004: Tel. No.: +91-9162192511; Email: amrapalifilms@gmail.com; Website: http://amrapalifilms.com/

RESULT OF POSTAL BALLOT Pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the

Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, the approval of the Shareholders was sought for Voluntary Delisting of Equity Shares of the Company from the Calcutta Stock Exchange Limited i.e., the only Stock Exchange where the equity shares of the Company are presently listed, in terms of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 as amended (hereinafter referred to as the "Delisting Regulations"), as specified in the Postal Ballot Notice dated March 05, 2025 read with Special Resolution and Explanatory Statement attached thereto Mr. Ajay Kumar Kataruka (DIN: 00269556), the Whole-time Director of the Company, has

announced the results of the Postal Ballot on the basis of the Scrutinizer Report dated April 11, 2025 submitted by Mr. Abhljeet Jain, Proprietor of M/s. A J & Associates. Practicing Company Secretaries, Membership No.: FCS 4975, C.P. No.: 3426, appointed in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder. The following result of the e-voting was announced at the Registered Office of

A summary of the Postal Ballot votes received is given below:

SI. No.	Votes	By Physical Ballot	By Electronic Voting	Total No. of Valid Votes	% of votes polled on outstanding shares
1.	Favour	0	401340	401340	99.84
2.	Against 0		0	0	0.00
	Total	0	401340	401340	99.84

from the Calcutta Stock Exchange Limited.

Whether Promoter/ Promoter Group are Yes interested in the agenda/ Resolution?

Category	No. of shares held	Mode of voting	No. of votes polled	% of votes polled on outstanding shares	No. of votes in favour	No. of votes against	% of votes in favour on votes polled	% of votes against on votes polled
Promoter and Promoter	379630	Physical Ballot	0	0.00	0	0	0:00	0.00
Group		E-voting	379630	100.00	379630	0	100.00	0.00
Sub Total (A)	379630		379630	100.00	379630	0	100.00	0.00
Public- Institutions	0	Physical Ballot	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		E-voting	NA	NA:	NA.	NA:	NA:	NA.
Sub Total (B)	0		NA	NA	NA	NA	NA	NA
Public Shareholders	22370	Physical Ballot	0	0.00	0.	0	0.00	0.00
		E-voting	21710	97.05	21710	.0	100.00	0.00
Sub Total (C)	22370		21710	97.05	21710	0	100.00	0.00
Total	402000		401340	99.84	401340	0	100.00	0.00

The terms "Public Shareholders" and "Promoters" have the same meaning as assigned to them under the Delisting Regulations. The total valid votes casted by the Public Shareholders in favour of the proposed

resolution are more than two times of the valid votes casted by the Public Shareholders as required under Delisting Regulations. Accordingly, the Special Resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated March 05

2025 was declared as approved and passed with requisite majority as required under Regulation 11(4) of the Delisting Regulations. By Order of the Board of Directors

For Amrapali Films Limited

Date: 16.04.2025 Place: Kolkata

Sarad Gupta Chief Financial Officer

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT, NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA, INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND "NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITALAND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan this QR code to view the Addendum Cum Corrigendum)



VIDYA WIRES LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Vidya Wires Private Limited' as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated December 11, 1981, issued by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed at the meeting of the Board of Directors held on June 19, 2024 and a special resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on July 15, 2024 and consequently, the name of our Company was changed from 'Vidya Wires Private Limited' to 'Vidya Wires Limited', and a fresh certificate of incorporation dated September 16, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre to our Company, For further details, please see section titled "History and Certain Corporate Matters" on page 216 of the Draft Red Herring Prospectus dated January 11, 2025 ("DRHP"). Corporate Identity Number: U31300GJ1981PLC004879

> Registered Office: Plot No. 8/1-2, GIDC, Opposite SLS Industries, Vithal Udyognagar, Anand- 388 121, Gujarat, India; Telephone: +91 74340 38300/301; Contact Person: Alpesh Makwana, Company Secretary and Compliance Officer; Email: cs@vidyawire.com; Website: www.vidyawire.com

NOTICE TO INVESTORS: ADDENDUM CUM CORRIGENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED JANUARY 11, 2025 (THE "ADDENDUM CUM CORRIGENDUM")

OUR PROMOTERS: SHYAMSUNDAR RATHI, SHAILESH RATHI AND SHILPA RATHI

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [.] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH ("EQUITY SHARES") OF VIDYA WIRES LIMITED ("COMPANY" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[.] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹3,200 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 10,000,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹[...] MILLION BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") COMPRISING UP TO 5,000,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY SHYAMSUNDAR RATHI AND UP TO 5,000,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION BY SHAILESH RATHI (COLLECTIVELY, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES, THE "OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [•] % OF THE POST-OFFER PAID-UP SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹1 EACH. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMs AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF THE [•], AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION, AND [•] EDITIONS OF [•], A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY NEWSPAPER WITH WIDE CIRCULATION, [•] EDITIONS OF [•], GUJARATI LANGUAGE DAILY WITH WIDE CIRCULATION (GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), ATLEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE STOCK EXCHANGES FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SEBI ICDR REGULATIONS. This Addendum is in reference to the Draft Red Herring Prospectus dated January 11, 2025, ("DRHP") filed with SEBI and the Stock Exchanges in relation to the Offer. In this regard, potential Bidders should note that

we propose to make certain modification, specified below, to the disclosures made in the DRHP. Potential Bidders may note the following:

a. In the section titled "Our Business-Properties" beginning on page 206 of the DRHP, the following information with respect to the details of the properties held by our Subsidiary shall be added:

Place: Anand, Gujarat

Date: April 16, 2025

Set forth below are details of the properties that our Company and our Subsidiary use as of the date of the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

Location	Lesson	Lessee/Owner	Furpose	retin of the Lease
Survey number 441, 442P (34), 442P (75), 443, 444, 445, 446, 446P, 447, 448, 448P, 449, 450, 451, 452 and 453 situated at Narsanda, Taluka Nadiad—387345, Gujarat, India	N.A.	Subsidiary	For Proposed Project	N.A.

- In the section titled "Object of the Offer", in the table appearing under the heading "b. Repayment/prepayment, in full or part, of all or certain outstanding borrowings availed by our Company" on page 107, the outstanding amount of HDFC Bank Ltd. as on December 31, 2024, should be read as 300.39 instead of 305.45 (both amounts in ₹ million)
- Income Tax Department ("IT Department") had issued summons under Section 131A and conducted a search and seizure under Section 132 of the Income Tax Act, 1961 ("Search"), at the Registered Office of the Company and at the residence of our Promoters and the bank lockers in the name of Promoters from February 27, 2025 to March 02, 2025 and on March 19, 2025. Accordingly, the DRHP, including the sections titled "Outstanding Litigation and Material Developments" and "Risk Factors" beginning on page 330 and 30 of the DRHP, shall stand suitably updated.
- Income Tax Department issued notices dated March 27, 2025 and March 31, 2025 under Section 148 of the Income Tax Act, 1961 (the "Notices") to Shailesh Rathi ("Promoter") directing him to file revised income tax returns for the Assessment Years 2023-2024 and 2022-2023. Accordingly, the DRHP, including the sections titled "Outstanding Litigation and Material Developments" and "Risk Factors" beginning on page 330 and 30 of the DRHP, shall stand suitably updated.

The above changes are to be read in conjunction with the DRHP and accordingly their references in the DRHP stand amended to the extent stated in this Addendum cum Corrigendum. The information in this Addendum cum Corrigendum supplements the DRHP and updates the information in the DRHP, as applicable. However, this Addendum cum Corrigendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the DRHP and the date hereof, and accordingly does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Please note that the information included in the DRHP, including to the extent stated in this Addendum cum Corrigendum, will be suitably updated, as may be applicable in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, the SEBI and the Stock Exchanges. Investors should not rely on the DRHP or this Addendum cum Corrigendum for any investment decision, and should read the Red Herring Prospectus, as and when it is filed with the RoC. SEBI and the Stock Exchanges before making an investment decision with respect to the Offer.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Draft Red Herring Prospectus. For further details, please refer to the Draft Red Herring

This Addendum cum Corrigendum, which has been filed with SEBI and the Stock Exchanges, shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing with SEBI and will be available on their website www.sebi.gov.in, the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, the website of the Company i.e. www.vidyawire.com and the websites of BRLMs, i.e., Pantomath Capital Advisors Private Limited at www.pantomathgroup.com and IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.idbicapital.com.

P ANTÔMATH	(1) IDBI capital	MUFG
Pantomath Capital Advisors Private Limited Pantomath Nucleus House, Saki Vihar Road Andheri East, Mumbai - 400072, Maharashtra, India Telephone: +91 1800 889 8711 E-mail: vidyawires.ipo@pantomathgroup.com Investor Grievance E-mail: investors@pantomathgroup.com Website: www.pantomathgroup.com Contact Person: Amit Maheshwari SEBI Registration Number: INM000012110	IDBI Capital Markets & Securities Limited 6" Floor, IDBI Tower WTC Complex Cuffe Parade, Mumbai - 400005 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4069 1953 E-mail: vidyawires.ipo@idbicapital.com Investor Grievance E-mail: redressal@idbicapital.com Website: www.idbicapital.com Contact Person: Lokendra Parihar SEBI Registration Number: INM000010866	MUFG Intime India Private Limited (Formerly known as Link Intime India Private Limited) C-101, 1"Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli West Mumbai - 400 083 Maharashtra, India Telephone: +91 810 811 4949 E-mail: vidyawires.ipo@linkintime.co.in Investor Grievance E-mail: vidyawires.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration Number.: INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.


For VIDYA WIRES LIMITED On behalf of the Board of Directors

Alpesh Makwana Company Secretary and Compliance Officer

REGISTRAR TO THE OFFER

VIDYA WIRES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and requisitory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges on January 11, 2025. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.vidyawire.com; and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e. Pantomath Capital Advisors Private Limited and IDBI Capital Markets & Securities Limited at www.pantomathgroup.com and www.idbicapital.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" beginning on page 30 of the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made



THURSDAY, APRIL 17, 2025

Type of Resolution Resolution

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SHALIMAR

SHALIMAR PAINTS LIMITED CIN: L24222HR1902PLC065611

Registered Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32, Gurugram, Haryana 122001 Corporate Office: Olethia Business Spaces, Plot No. A184 and A185, Road No. 16Z, Opposite Ashar IT Park, Wagle Industrial Estate, Thane, Maharashtra 400604, Toll Free: 1800 103 6509 Email: askus@shalimarpaints.com; Website: www.shalimarpaints.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time ("MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) and/or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice on Wednesday, April 16, 2025 through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, April 11, 2025, seeking approval of the Shareholders of the Company by Postal Ballot through electronic means for the following matter:

Ordinary	Appointment of Mil. Rulaip Railia as Director of the Company							
Special	Special Appointment of Mr. Kuldip Raina as Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of the Company							
	he detailed procedure for remote e-v	Depository Services (India) Limited ('CDSL') for providing remote e-voting facility to oting is listed as a part of the Postal Ballot Notice.						
Cut-off date for	Cut-off date for eligibility of remote e-voting Friday, April 11, 2025							
Commonoomo	at of comoto a unting paried	00-00 a m ICT Thursday April 17 2026						

Appointment of Mr. Kuldin Raina as Director of the Company

Commencement of remote e-voting period 09:00 a.m. IST Thursday, April 17, 2025 Conclusion of remote e-voting period 05:00 p.m. IST Friday, May 16, 2025 Please note that communication of assent or dissent of the members would only take place through the remote e-voting system. The voting rights of the members shall be in proportion to the shares held by them in paid -up equity share capital of the Company as on cut-

A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast, members shall not be allowed to change it subsequently. The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Friday, May 16, 2025 and the remote e-voting module shall be

disabled by the CDSL thereafter. The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Ankush Agarwal (COP No 14486), Partner of M/s. MAKS & CO., Company Secretaries (FRN P2018UP067700), as the Scrutinizer for conducting e-voting process for Postal Ballot in a fair and transparent

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company i.e. www.shallmarpaints.com, on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com and website of the Stock Exchanges were the equity shares of the Company are listed, BSE Limited ('BSE') i.e. www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") www.nseindia.com.

Shareholders holding shares held in electronic form and who have not updated their email or KYC details are requested to register/ update the details in their demat account, as per the process advised by their respective Depository Participant. Shareholders holding shares held in physical form who have not updated their email or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Transfer Agent of the Company, Beetal Financial & Computer Services Private Limited. For details relating to remote e-voting, please refer to the Postal Ballot Notice. In case of any queries relating to voting by electronic

means, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk, evoting@cdslindia.com. The Scrutinizer will submit his report to the Whole-time Director or any person authorized by him in writing, after the completion of the scrutiny of the e-voting, and the results will be announced within 2 (two) working days from the conclusion of e-voting. The results so

declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the website of the Company i.e. www.shalimarpaints.com and CDSL i.e. www.evotingindia.com and shall also be forwarded to the Stock Exchanges on which shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

By order of the Board For Shalimar Paints Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A49811

Place: Thane Date: April 16, 2025

PPFAS Mutual Fund

PPFAS Asset Management Private Limited (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, Sakhar Bhavan, Ramnath Goenka Marg, 230 Nariman Point, Mumbai - 400 021, Maharashtra, INDIA. Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6140 6590. E-mail: mf@ppfas.com. Website: www.amc.ppfas.com CIN No: - U65100MH2011PTC220623

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF PPFAS **MUTUAL FUND ('THE FUND')**

Appointment of Key Managerial Personnel and Change in Designation of Key Employees of PPFAS Asset Management Private Limited

Investors are requested to note that the Board of Directors of PPFAS Asset Management Private Limited ('PPFAS AMC') and PPFAS Trustee Company Private Limited ('Trustee to PPFAS Mutual Fund') have approved the Change in designation for the following employees w.e.f. April 01, 2025 in view of the 'Title Restructuring' exercise undertaken by the organization and have further noted the appointment of Mr. Jitendra Motwani as a Chief Operating Officer of PPFAS AMC w.e.f. April 04, 2025.

Therefore, requisite section "Information on Key employees of the Asset Management Company" in the SAI will be updated with the following details:

Sr. No.	Name	Current Designation	Revised Designation
1	Mr. Ranbir Nayal	CISO & Head IT	CISO
2	Mr. Jignesh Desai	COO - RTA Operations	Head - Operations (RTA) & Principal Officer
3	Mr. Aalok Mehta	Chief Sales Officer - Direct	Head - Investor Relations & Direct Channel
4	Mr. Mahesh Sarode	Chief Sales Officer - Regular	Head - Distribution Channel (East & West)
5	Mr. Raj Mehta	Fund Manager - Debt	Executive Vice President & Fund Manager - Debt
6	Mr. Rukun	Fund Manager - Equity	Executive Vice President &
	Tarachandani		Fund Manager - Equity
7	Ms. Mansi Kariya	Credit Research Analyst &	Associate Vice President & Fund Manager- Debt
		Co-Fund Manager - Debt	
8	Mr. Radheshyam	Dealer - Equity	Associate Vice President - Equity Dealer
	Sahani		
9	Mr. Yatin Sureshbhai	Dealer - Equity	Associate Vice President - Equity Dealer
	Makwana		
10	Mr. Lachhu Chawla	Dealer - Equity	Associate Vice President - Equity Dealer
11	Ms. Aishwarya	Dealer - Debt	Senior Manager - Debt Dealer
	Shashi Dhar		
12	Ms. Sanjana Jadhav	Manager -	Head - Human Resources
		Human Resources	

	Shashi Dhar				
12	Ms. Sanjana Jadl		Manager - Human Resource	s	Head - Human Resources
Key P	e of the ersonnel esignation	Age	Qualification	Brief Exp	erience
	tendra Motwani Operating Officer)	43	Chartered Accountant	a Bachelo He brings Capital M roles in A Relations, engineerin Funds, Po Alternativ In his pre Head of Opi in setting processes group. In t Edelweiss Managem At Industr APMI (Ass & Complia	is a qualified Chartered Accountant and holds it's degree in Commerce from Mumbai University. with him a rich experience of over 18 years in arkets having spent significant time in leadership sset & Wealth Management Operations, Investor Risk Management, Audit Function, Processing, Automation and Governance across Mutual partfolio Management Services, Offshore Funds, elinvestment Funds & Structured Solutions. Evious role with Nuvama Asset Management as perations & Investor Services, he was instrumentally up & streamlining business-wide systems & for new age Investment Management Business of the past, he has also worked with organisations like the past, he has also worked with organisations like the past, but he has also worked with organisations like the past, Jitendra has served as founding member of sociation of Portfolio Managers of India) Operations ance Committee (2023-25) and was recognised for cant contributions to OPCO committee.

This notice cum addendum forms an integral part of the SAI. All other features, terms and conditions mentioned in the SAI remain unchanged.

> **For PPFAS Asset Management Private Limited** (Investment Manager to PPFAS Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: April 16, 2025 Director

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.



Adfactors 10/25

New Delhi

जनसता

17 अप्रैल, 2025

रिमोट ई-वोटिंग कार्यक्रम:

हस्ता / — (प्राधिकृत अधिकारी)

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रिमोट ई-बोर्टिम की पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि



शालीमार पेंट्स लिमिटेड

सीआईएन : L24222HR1902PLC065611

पंजीकृत कार्यालय : स्टेनलेस सेंटर, चौथा तल, प्लॉट नंबर 50, सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा 122001 कॉर्पोरेट कार्यालय : ओलेथिया बिजनेस स्पेस, प्लॉट नंबर ए184 और ए185, रोड नंबर 16जैड, अशर आईटी पार्क के सामने, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र 400604, टोल फ्री : 1800 103 6509

ईमेल : askus@shalimarpaints.com, वेबसाइट : www.shalimarpaints.com

डाक–मतदान सूचना और रिमोट ई–वोटिंग जानकारी

लदुद्वारा सदस्यों को सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) की धारा 108, 110 और अन्य समी लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली"), कार्पास्ट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") हारा जारी किए गए सामान्य परिपन्न संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितंबर, 2024 और समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय कन्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 ("एसएस-2"), संबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियमावली") और अन्य लागू कानून और विनियम (किसी भी वैधानिक संशोधन और / या सहित) (इसके पुनः अधिनियमन (अस्थायी रूप से लागू) के अनुसरण में, केम्पनी ने उन सदस्यों को, जिनके ई-मेल पते कम्पनी / दिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं और जिनके नाम शुक्रवार, 11 अप्रैल, 2025 तक विपॉजिटरी द्वारा बनाए गए कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर या लाभाधी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवस इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से डाक-मतदान सूचना भेजने का काम बुखवार, 16 अप्रैल, 2025 को पूरा कर लिया है, जिसमें निम्नलिखित मामले के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डाक मतदान द्वारा कम्पनी

प्रस्ताव का प्रकार	प्रस्ताव
साधारण	कम्पनी के निदेशक के रूप में श्री कुलदीप रैना की नियुक्ति
विशेष	कम्पनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में श्री कुलदीप रैना की नियुक्ति

रिमोट ई-वोटिंग अवधि की शुरुआत गुरुवार, 17 अप्रैल, 2025 पूर्वा, 09:00 बजे आईएसटी रिमोट ई-वोटिंग अवधि का समापन शुक्रवार, 18 मई, 2025 अप, 05:00 बजे आईएसटी कृपया ध्यान दें कि सदस्यों की सहमति या असहमति का सम्प्रेषण केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही करना होगा। सदस्यों के वेटिंग अधिकार कट-ऑफ

शक्रवार, 11 अप्रैल, 2025

जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसको यह सूचना केवल जानकारी के निमित्त समझनी चाहिए। एक बार प्रस्ताव पर वीट डाले जाने के बाद, सदस्यों को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने मैसर्स एमएकेएस एँड कम्पनी, कम्पनी सेक्रेटरीज (एफआरएन पी2018यूपी067700) के पार्टनर श्री अंक्श अग्रवाल (सीओपी नंबर 14486) की

शुक्रवार, 16 मई, 2025 को अप. 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और तद्परांत सीढीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडवुल

निष्यक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक-मतदान के लिए ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने हेत् संबीक्षक नियक्त किया है।

डाक मतदान सूचना कम्पनी की वेबसाइट यानी www.shalimarpaints.com, सीडीएसएल की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचैजों की वेबसाइट नामतः बीएसई तिमिटेड ('बीएसई') यानी www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं, जहां कम्पनी के इविवटी शेयर सुधीबद्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारक शेयरधारकों, जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी

द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेंट खाते में विवरण पंजीकृत / अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर धारक शेयरधारकों, जिन्होंने अपना ईमेल या केवाईसी विवरण अपडेट नहीं किया है, से अनुरोध है कि वे कम्पनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास निर्धारित फार्म आईएसआर—1 में उक्त विवरण पंजीकृत / अपबेट करें ।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया ढाक मतदान सुचना देखें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिख सकते हैं।

ई-बोटिंग की जांच परी होने के बाद, संवीक्षक अपनी रिपोर्ट एर्गकालिक निदेशक या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपेगा, और ई-वोटिंग के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों के मीतर परिणाम घोषित किए जाएंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कम्पनी की वेबसाइट यानी www.shalimarpaints.com और सीडीएसएल यानी www.evotingindia.com पर ढाले जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी अग्रसरित किए जाएंगे, जहां कम्पनी के शेयर सकीबद्ध हैं।

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

PET PLASTICS LIMITED

A public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 Corporate Identification Number: L25200MH1985PLC037217;

Registered Office: 3rd Floor, Panchratna Building, Opera House, Mumbai - 400004, Maharashtra, India;

Contact Number: +91-22-66344067/+91-22-23672418; Fax Number: +91-22-23615564;

E-mail Address: ppl@petplasticslimited.com/ petplasticslimited@gmail.com; Website: www.petplasticslimited.com;

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 1,30,000 OFFER SHARES REPRESENTING 26,00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF

PET PLASTICS LIMITED FROM ITS PUBLIC SHAREHOLDERS AT AN OFFER PRICE OF ₹175.00/-, PAYABLE IN CASH, BY MR. ABHINATH

MANIKRAO SHINDE (ACQUIRER 1) AND MR. KETAN ISHWARLAL KATARIA (ACQUIRER 2). THE ACQUIRERS. PURSUANT TO AND IN

COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATIONS 3 (1) AND 4 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer

('Manager'), on behalf of the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the

provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ("Post-Offer Public Announcement").

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated

Thursday, October 03, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Monday, October 07, 2024, in connection

with this Offer, published on behalf of the Acquirers on Tuesday, October 08, 2024, in Financial Express (English Daily) (All India

Editions), Jansatta (Hindi daily) (All India Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition) ('Detailed Public Statement'),

(c) Draft Letter of Offer dated Friday, October 11, 2024 filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of

the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Saturday, March 08, 2025 along with the Form of Acceptance-

cum-Acknowledgement ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were

approved on Saturday, March 15, 2025, and published in the Newspapers on Monday, March 17, 2025 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company'), (f) Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement dated

Monday, March 17, 2025, which was published in the Newspapers on Tuesday, March 18, 2025 ('Pre-Offer Public Announcement') (the

Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors,

Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company, and this Post-Offer Public

The capitalized terms used but not defined in this this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the

Pet Plastics Limited bearing corporate identity number 'L25200MH1985PLC037217', with it

registered office located at: 3rd Floor, Panchratna Building, Opera House, Mumbai - 400004

Mr. Abhinath Manikrao Shinde, son of Mr. Manikrao Tabaji Shinde, aged about 38 years, Indian

Resident, bearing Permanent Account Number 'BQYPS1557B' allotted under the Income Tax Act,

1961, resident at Balam Takli, Shevgaon, Ahmednagar - 414504, Maharashtra, India. (Acquirer 1)

Mr. Ketan Ishwarlal Kataria, son of Mr. Ishwarlal Kataria, aged about 43 years, Indian Resident,

Announcement are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirers.

(SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED.

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते शालीमार पेंट्स लिमिटेड

स्थान : थाने तिथि : 16 अप्रैल, 2025

Name of the Target Company

Name of the Acquirers and PACs

हस्ता / स्नेहल साब कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या : ए४९८११

INFRA.MARKET

है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतदान सुबना के एक भाग के रूप में सुचीबद्ध की गई है।

तिबि के अनुसार कम्पनी की चकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by "EICHER MOTORS LTD." ("the Company") are stated to have been lost or misplaced and the registered shareholder (s) applied for the issue of duplicate share certificate(s).

FOLIO NO	REGISTERED SHAREHOLDER(S)	CERT NO	DIST FROM	DIST TO	EQUITY SHARES
0060551	AKASH LAL	5662	564301	564400	100
		81074	18083075	18083174	100
		81081	18083775	18083779	5
		100000000000000000000000000000000000000	NOTES PRODUCTION	100000000000000000000000000000000000000	205

Any person who has/have a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her/their claim with all supporting documents with the Company or EICHER MOTORS LTD, 3rd Floor - Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket, New Delhi, Delhi, 110017. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the date of publication of this notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the shareholder (s) listed above and no further claim would be entertained from any other person(s).

Place: Delhi Date: 17.04.2025

AKASH LAL Name of the Shareholder

"फॉर्म संख्या यूआरसी–2" अधिनियम के अध्याय XXI के भाग । के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन। । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए प्राधिकत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

इसके द्वारा यह सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार, पंद्रह दिन के पश्चात लेकिन तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले दिल्ली स्थित रिजस्ट्रार को आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि मेसर्स श्री बालाजी हवेली एंड रिसॉर्ट एलएलपी, एलएलपी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एलएलपी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय गग्ध के भाग 1 के अंतर्गत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकत किया जाए। . कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:--

• हॉलिडे रिसॉर्टस बोर्डिंग और लॉजिंग हाउस होटल रेस्तरां कैफे रिसॉर्टस वेकेशन / हॉलिडे रिसॉर्ट्स, विला, लॉजिंग, स्टॉल, समर हाउस, कैसल, रोड हाउस, मोटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, रिट्रीट, कॉटेज, रेस्ट रूम, हॉलिडे कैंप, टाइम शेयर रिसॉर्ट्स, कंट्री क्लब, मास हाउसिंग, रिट्रीट, रो हाउसिंग, ट्रिस्ट बंगले, हेल्थ केयर क्लीनिक, हेल्थ स्पा, हेल्थ रिजुवेनेशन हॉस्पिटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, पार्टी हॉल और देश भर में और विदेशों में सभी प्रकार के सभी प्रकार के आवासों को खरीदना, निर्माण करना, स्थापित करना, संचालन करना, प्रबंधन करना, अधिग्रहण करना, प्राप्त करना, पट्टे पर देना, बढ़ावा देना, विकसित करना और चलाना, आगंत्कों, मेहमानों या ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल इमारतों का निर्माण करने के लिए भूमि खरीदना और विकसित करना, आगंतुकों, ग्राहकों या मेहमानों को पूल बनाने के लिए भूमि पट्टे पर देना, स्पा, कॉटेज और अन्य सुविधाएं स्वयं या अनुबंध के आधार पर, आगंतुकों, ग्राहकों या मेहमानों को कमरे, सुइटस, कॉटेज, शैलेट या अन्यथा किराए पर देने के उद्देश्य से किसी भी संपत्ति को फिट और सुसज्जित करना, उन्हें बेचना, उन्हें समय साझा करने या संपत्ति साझा करने के आधार पर दिनों, हफ्तों, महीनों और किसी भी अविभाजित शेयरों के साथ या बिना अवकाश विनिमय आधार के भारत और भारत के बाहर (एकमुश्त बिक्री के आधार पर) पडे पर देना।:

• विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कर्मियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और पाठ्यक्रम चलाना और उपरोक्त खंड (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के संबंध में अन्य संबद्ध शैक्षिक गतिविधियाँ और ऐसे अन्य सहायक व्यवसाय जो विशेष रूप से अनुसुची। में वर्णित हैं, जब तक कि आपसी सहमति से बदलाव न किया जाए और ऐसे अन्य व्यवसाय जो एलएलपी के वर्तमान में नामित भागीदारों द्वारा समय-समय पर आपसी सहमति से हो सकते हैं। हालाँकि, भागीदारों की सहमति के बिना सीमित देयता भागीदारी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों की एक प्रति **X/2815**,

में स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है। . इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुडगांव (हरियाणा), पिन कोड–122050 के रजिस्टार को लिखित रूप में अपनी आपत्ति बता सकता है, साथ ही इसकी एक रित कंपनी के पंजीकत कार्यालय को भी भेजी जाएगी। दिनांक 16 अप्रैल, 2025 आवेदक का नाम

स्ट्रीट नंबर 5 ए, रघुबरपुरा नंबर 2, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110031, भारत

2. मधुसूदन मुंधरा (प्रस्तावित निदेशक)

1. बसंत मुंधरा (प्रस्तावित निदेशक)

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अंतर्गत केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के तहत

फॉर्म नं. INC-26

नेक्सटोव आईटी सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U74999DL2019PTC349153), जिसका पंजीकृत कार्यालय 73, संख्याम अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9, रोहिणी, उत्तर दिल्ली-110085 भारतआवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 15 अप्रैल, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पृष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) में शिकायल दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र**, कारपोरेट कार्यालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।

73, सुखधाम अपार्टमेंट्स, सेक्टर-9, रोहिणी, उत्तर दिल्ली-110085, भारत । नेक्सट्रोव आईटी सॉल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

हस्ताक्षरित श्भम मित्तल (निदेशक) डीआईएन : 08434280 दिनांक : 17-04-2025

स्थान : दिल्ली

प्ररूप संख्या यूआरसी-2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

सुचना दी जाती है की क्रंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में रिपस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050 को एक आवेदन पंद्रह दिनों के बाद, लेकिन तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पहले प्रस्तावित है, की "एबीआई एनजी सॉल्य्शंस एलएलपी (एलएलपीआईएन: एएडी-2515)" एक एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

कंपनी के मूल उद्देशय इस प्रकार हैं: (क) इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, निर्माण, स्थापना, मरम्मत, बहात, संचातन, विकास, बढ़ावा देना, सलाह देना, परामर्श, अनुसंधान और विकास, परीक्षण, उपक्रम, अधिग्रहण, निष्पादन, सीदा, व्यापार, बाहे स्वतंत्र रूप से वा किसी भी रूप में अन्य (ओं) के सहयोग से, भारत में या दनिया में कहीं भी, सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों (निर्माण, सडक, रेलवे, सिंचाई, जल, तेल और गैस, विमानन, आवास और भवन, बिजली और ऊर्जा क्षेत्र, इंदी और सभी अन्य), भारत और विदेशों में, बिजली पारेषण, बिजली वितरण, उपयोगिता स्थानांतरण, सब-स्टेशन, उत्पादन स्टेशन, बिजली घर, सीर सबस्टेशन, सीर ऊर्जा संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, नेटवर्क प्रबंधन दूरसंचार प्रणाली (बानियादी, सेलुलर, पेंजिंग, वायरलेस, उपग्रह आधारित और अन्य), रेलवे, सहक, राजमार्ग, पूल, फ्लाईओवर, इमारती, संरचनाओं, नहरी, हवाई अहों, बांचों, डॉक, बंदरगाहों, बंदरगाहों और बनिवादी डांचे और बनिवादी डांचे की सुविधाओं, बिजली संपंत्रों (धर्मल - कोयला, नेपथा, धनीभृत / तरलीत प्रांतिक गैस और अन्य पेट्रो उत्पादी जैसे ईंपन पर आधारित, मिनी और प्रमुख हाइडल; पंप मंडारण योजना, पवन और गैर-पारंपरिक ऊर्जा आधारित), रियल एस्टेट, पानी, तेल और गैंस और इंजीनियरिंग पर किसी भी प्रकार के कार्यों या परियोजनाओं से जड़े किसी भी अन्य परियोजनाएं, सरकारी, अर्ध-सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों या निकायों, कॉर्पोरेट या व्यक्तियों या अन्य के लिए और उनकी ओर से खरीद, निर्माण आधार।

(ख)लोहा, इस्पात चातु, सभी प्रकार के जेली भरे केबल्स, फोम से भरे केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, स्टील प्रबंशित (एसीएसआर) अछता केवल, तार, रबर अछता तार और केवल, केब टायर शीट वाले तार, एक्सएनपीई केबल्स, एरियन बंट्ड केबन, एलटी पावर केबल्स, एल्यॉमिनयम केबल्स, पीवीसी केबल्स और फ्लेक्सिबल्स, फ्लेक्सिबल्स कार्ड, कपास या रेशम लट, आचरण तार और केबल, कम और उच्च तनाव विजली केवल, विजली के तार, विजली पारेषण और विजली वितरण कंडक्टर और निंदनीय, लीह और अलींड चातुओं, विशेष और मिश्र चातु इस्पात, वसंत स्टील, विजली के तार और केवल, और जाली चटकों और सहायक उपकरण के सभी प्रकार के, मिश्र धानु, छड, कोण, घाटरें, गर्डर, पाइप, धीनल, अखरोट बोल्ट मशीनरी, सहायक उपकरण, स्टील राउंड, नाखून, उपकरण, सभी प्रकार के हार्डवेयर आइटम और आईटी संबद्ध उत्पाद, और खरीदने के लिए किराए पर बेचने, आयात करने, निर्यात करने के लिए, अन्यथा ऐसे उत्पादों में सीदा, उत्पादों, मशीनरी, रोलिंग स्टींक, औजारों, उपकरणों, जमीन उपकरण, सामग्री और सभी

प्रकार के उपकरणों की उपयक्तता द्वारा। ग) इंजीनियरिंग से जुड़ी परियोजनाओं में इंजीनियर या देकेदार या उप-देकेदार या बिल्डरी या मालिकों या डेवलपर्स के रूप में स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य व्यक्ति (ऑ) के सहयोग से स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य व्यक्ति (ओ) के साथ स्वतंत्र रूप से या किसी अन्य व्यक्ति (ओ) के सहयोग से अन्य संबंधित सेवाओं को डिजाइन करने, पर्यवेक्षण करने, स्वामित्व करने, निष्पादित करने, संचालन करने, बनाए रखने और प्रदान करने में संतरन है, बिजली, दुरसंचार, रेलवे, किसी भी अन्य ब्र्नियादी डांचे, इमारतों और संरचनाओं, पानी, तेल और गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्था, खरीद, निर्माण, प्रबंधन; विकासकर्ता और अवसंरचना निवेश परियोजना के रूप में निर्माण-प्रचालन-हस्तांतरण (बीओटी) या निर्माण-स्वामित्व-प्रथालन (कीओओ) या निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-अंतरण (बीओएलटी) आधार, निर्माण-स्वामित्व- प्रचालन-इस्तांतरण (बुस्ट) आधार पर अधवा विकासकर्ता एवं अवसंरचना निवेश परियोजना के रूप में किसी अन्य आधार पर निर्माण-प्रचालन-इस्तांतरण (बीओओटी) आधार पर।

व) खरीदना, वेचना, फिर से वेचना, बदलना, आयात करना, निर्यात करना, सुधारना, इकट्ठा करना, वितरित करना, पड़े पर देना, किराया खरीद प्रणाली पर काम पर रखना या अन्यथा सभी प्रकार के तार केवल. कंडक्टर, इन्सुलेटर, डाइड्रो-थर्मल या डीजल इलेक्ट्रिक स्टेशनी, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सब-स्टेशन और ट्रांसफामेंर स्टेशनों के रूप में कम तनाव मशीनों के डिजाइन, कम तनाव और उच्च तनाव स्विचिंगवर, कम तनाव और उच्च तनाव नेटवर्क, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ट्रामवे और औद्योगिक रेलवे, इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन कन्वर्टर्स और रेलवे, पोस्ट और उद्योगों के लिए सधार स्टेशन, सभी औद्योगिक और कषि उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक ट्यूब, पोंछते पीथे, सहायक उपकरण और उपकरण और विद्युत चिकित्सा उपकरण, औद्योगिक और घरेलु बिजली के उपकरण और सभी प्रकार के दुरसंधार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य उपकरण, सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार की निर्माण परियोजना से संबंधित सामग्री।

. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुकोद हापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण 16ए/2151 वसंबरा सैक्टर-16ए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012 स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जा सकता है।

सुचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह लिखित में अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन के इक्कीस दिन के भीतर राजिस्टार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6, 7, 8, सैक्टर-5, आईऍमटी मानेसर, जिला युड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050, पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेज दें। एबीआई एनर्जी सॉल्युशंस एलएलपी के लिए

तिथि: 17.04.2025

स्थान : गाजियाबाद

रोहित पांडे (नामित साझेदार) सुनील दत्त पांडे (नामित साझेदार)

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड @ Piramal

Capital & Housing Finance पंजीकृत कार्यालयः 601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन वे विपरीत, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई—400070 टी — +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं-6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301

संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार – 9650606340 2. पंकज कश्यप – 9136178689 3. रोहन सावंत – 9833143013 ई—नीलामी बिक्री सूचना — अगामी बिक्री

उधारकर्ता / ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अंतर्गत **पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कब्जे में है, को 'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है वैसा' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर खरीदने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे

ऋणकोड / शाखा संपत्ति का आरक्षित मूल्य बियाना राशि जमा बकाया राशि मांग नोटिस / उधारकर्ता (ओं) / की तिथि पता-अंतिम (ईएमडी) (14-04-2025)सह–उधारकर्ता(ओं) और राशि (आरपी का / गारंटर(ओं) 10प्रतिशत) ऋण कोड संख्याः ₹. दिनांकः 08-11-2023, संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:-1629000 /-162900 / -, 2408327/-, M0149511, रु. 2003529 / − नगरपालिका संख्या डी–2763 पुराना नंबर 26 संपूर्ण द्वितीय (रु. सोलह दिल्ली (शाखा) (रु. एक लाख (रु. बीस लाख तीन तल ललिता ब्लॉक ललिता ब्लॉक, शास्त्री नगर दिल्ली लाख उनतीस अजीत यादव (उधारकर्ता), बासत हजार नौ आत हजार तीन हजार पांच सौ 110052 हजार मात्र) सौ मात्र) सौ सत्ताईस मात्र) सूजीत यादव उनतीस मात्र) (सह–उधारकर्ता 1) ई—नीलामी की तिथिः 06—05—2025, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 05—05—2025,

सायं 4.00 बजे से पूर्व। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.om/e-Auction.html में दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com

पर ईमेल करें। उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटर को नीलामी की तिथि से पहले की तिथि तक अर्जित ब्याज सहित धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सुचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी /बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

C Piramal

दिनांकः 17.04.2025

स्थानः दिल्ली

पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65910MH1984PLC032639 Capital & Housing Finance पंजीकृत कार्यालयः 601, 6वीं मंजिल, पिरामल अमिटी बिल्डिंग, पिरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के विपरीत, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 टी - +91 22 3802 4000 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं-6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301 संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार – 9650606340 2. पंकज कश्यप – 9136178689 3. रोहन सावंत – 9833143013

ई–नीलामी बिक्री सूचना – ताजा बिक्री

उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के **अंतर्गत पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रोधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो कब्जे में है, को **'जहां है जैसा है', 'जो है जैसा है वैसा["] और 'जो कुछ भी है'** के आधार पर खरीदने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे

ऋण कोड/शाखा/ उधारकर्ता (ओं) /सह—उधारकर्ता(ओं) /गारंटर(ओं)	मांग नोटिस की तिथि और राशि	संपत्ति का पता—अंतिम	आरक्षित मूल्य	ৰযানা रাशি जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत)	बकाया राशि (14—04— 2025)
ऋण कोड संख्याः 19600042980, गुरुग्राम – एमजी रोड (शाखा), नितिन कुमार (उधारकर्ता), सोनिया बिष्ट (सह–उधारकर्ता 1)	(रु. इक्कीस लाख	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— पलैट नंबर 4 ऊपरी तल फिर मध्य साइड एनए (स्केच देखें) प्लॉट नंबर 31 विक्रम एन्क्लेव (स्केच देखें) प्लॉट नंबर 31 विक्रम एन्क्लेव पासोंडा लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 में सीमाएँ:— उत्तरः प्लैट नंबर—6 दक्षिणः फ्लैट नंबर—2 पूर्वः सीढ़ी / बालकनी पश्चिमः फ्लैट नंबर 3	रु. 2066000/-, (रु. बीस लाख छियासठ हजार मात्र)	रु. 206600 / – , (रु. दो लाख छह हजार छह सौ मात्र)	रू. 3907212 / −, (रु. उनचालीस लाख सात हजार दो सौ बारह मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 27-05-2025, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 26-05-2025, सायं 4.00 बजे से पूर्व। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.om/e-Auction.html में दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटर को नीलामी की तिथि से पहले की तिथि तक अर्जित ब्याज सहित धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी तो उसे उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा। इस्ता /— (पाधिकत अधिकार्र पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थानः दिल्ली

AUTHUM

पर ईमेल करें।

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोडे, नरीमन पॉइंट, मुंबई—400 021 शाखां कार्यालय:- १ ए. प्रथम तल, गोपाला टॉवर २५, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008,

जबिक निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एआईआईएल) (एनसीएलटी के दिनांक 10.05.2024 के आदेश के अनुसार रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से एआईआईएल में ऋण कारोबार के विभाजन के परिणामस्वरूप परिणामी कंपनी) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के खनियम 3, के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।

कब्जे की सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता / सह—उधारकर्ताओं और आम जनता को विशेष रूप से संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार "ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड" के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता / सह-उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर

क्र.	/ऋण खाता संख्या /उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता	मांग सूचना की	कब्जे की तिथि /	डिमांड नोटिस में राशि (रु.)
सं	का नाम	तिथि	कब्जे की स्थिति	
1.	ऋण खाता संख्या:RLELMRT000383400P पी टायर रिट्रेडिंग इसके मालिक मोहसिम रजा खान और मोहसिम रजा खान, परवीन बेगम और परवेज फैयाज के माध्यम से	18.01.2025	14 / 04 / 2025 प्रतीकात्मक कब्ज़ा	रु. 28,44,340.00 /— (रुपये अड्डाईस लाख चौवालीस हजार तीन सौ चालीस मात्र)

उत्तर प्रदेश — 250002 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवम अंश । निम्नानुसार घिरा हुआः— पूर्व — मकान संख्या 529/13, पश्चिम — मकान संख्या 531/13,

2.	ऋण खाता संख्या:—RLELMRT000387067 'इकरा हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इसके मालिक, श्री सलीम मंसूरी और श्रीमती शबाना बेगम के माध्यम से	05.11.2024	14 / 04 / 2025 प्रतीकात्मक कब्ज़ा	रु. 2805048 / — (अड्डाईस लाख पांच हजार अड़तालीस रुपये मात्र)
	त्रानता राषाचा षचन पर नाव्यन त			

बंधक संपत्ति का विवरण:--मोहल्ला जाकिर हसैन कॉलोनी में स्थित , खसरा संख्या 3601 राजस्व गांव मेरठ, परगना तहसील और जिला मेरठ में स्थित संपत्ति / मकान संख्या 2863 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश , जिसका क्षेत्रफल 187.30 वर्ग मीटर,सहित उस पर बने भवन अधिरचना, उक्त संपत्ति निम्नानुसार घिरी हुई है:- पूर्वः 36 फीट / पप्पी का मकान, पश्चिमः 36 फीट / रास्ता 20 फीट चौड़ा। उत्तरः 56 फीट / नसरूद्दीन का मकान, दक्षिणः

दिनांक : 14.04.2025 प्राधिकृत अधिकारी,

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution, or release, directly or indirectly in the United States of America or otherwise outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalised terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated July 04, 2024 filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



SHARAT INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Venkannapalem Village, T. P. Gudur Mandal, Nellore, Andhra Pradesh- 524 002

Corporate Office: Flat No. 4, Third Floor, Pallavi Apartments, No. 57/11, Old No. 29/TF4, HDFC Bank Compound, First Main Road, R.A. Puram, Chennai- 600 028 Tel. No.: +91 8897628787; E-mail: cs@sharatindustries.com; Website: www.sharatindustries.com

Contact person: Mr. Ganesan Nilakanatan, Company Secretary and Compliance Officer

FIRST REMINDER CUM FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES ON WHICH CALL MONEY IS TO BE PAID

In terms of provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with the relevant rules made thereunder, the First and Final Ca Notice has been issued to such persons who were holders of the partly paid shares as on February 07, 2025, being the Record In this connection, the Rights Issue Committee of the Company ('Committee')duly authorized by the Board of Directors of the Company, by way of Circular Resolution passed on Tuesday, 15th April 2025, approved sending First Reminder cum Forfeiture

First and Final Call Money remains unpaid for payment of such unpaid First and Final Call. Accordingly, sending of First-Reminder-Forfeiture Notice to all the members who have not paid the call money has been initiated

Notice from time to time for payment of the First and Final Call amount of ₹23.25 (comprising ₹ 7.50 towards face value and ₹

15.75 towards premium) ("**Reminder-cum-Forfeiture Notice**") to the holders of such partly paid-up equity shares on which the

The payment period is from Wednesday, 30th April 2025 to Friday, 09th May 2025 (both days inclusive). Eligible Shareholders shall send their First and Final Call Money by way of Demand draft payable at Chennai along with the completed payment slip by registered post/speed post at the office of the Registrar to the Issue.

Please note that, failure to pay the First and Final call Money within the period as mentioned above shall render the partly paid-up equity shares of the Company, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Act, the Article of Association of the Company and the Letter of Offer. The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to such members, if any, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to

the partly paid-up equity shares of the Company. All correspondence in this regard may be addressed to Registrar to the Issue at below mentioned address:



Cameo Corporate Services Limited Unit: Sharat Industries Ltd – Partly paid up to Fully paid up conversion Subramanian Building, 1, Club House Road, Chennai-600002

Tel No.: +91 44 4002 0700 E-Mail Id: rights@cameoindia.com Investor Grievance E-Mail Id: investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com

Contact Person: Ms. K. Sreepriya **SEBI Registration No.:** INR000003753 For **SHARAT INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-N. GANESAN

COMPANY SECRETRAY & COMPLIANCE OFFICER

बंधक संपत्ति का विवरण:— संपत्ति अर्थात मकान संख्या 530 / 13, (भूमि का क्षेत्रफल 62.72 वर्गमीटर या 675 वर्गफीट), सेक्टर 13, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर— मकान संख्या 539 / 13, दक्षिण — 12 मीटर चौड़ा रास्ता।

2. ऋण खाता संख्या:—RLELMRT000387067 'इकरा हैंडलूम इंडस्ट्रीज, इसके मालिक, श्री सलीम मंसूरी और श्रीमती शबाना बेगम के माध्यम से	14 / 04 / 2025 प्रतीकात्मक कब्ज़ा	रु. 2805048 / — (अड्डाईस लाख पांच हजार अड़तालीस रुपये मात्र)
--	--------------------------------------	--

56 फीट/अहाता शफीकृदीन।

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्थान : मेरठ

bearing Permanent Account Number 'ADOPK3265C' allotted under the Income Tax Act, 1961, resident at Office Number 803, Skyline Wealthspace, WING C2 Millar Compound, Premier Road, Vidyavihar West, DMART, Ghatkopar West, Mumbai - 400086, Maharashtra, India. (Acquirer 2) here are no persons acting in concert with the Acquirers for the purpose of this Offer. Name of Manager to the Offer Swaraj Shares and Securities Private Limited Name of Registrar to the Offer Bigshare Services Private Limited Offer Details 5.1 Date of Opening of the Offer Wednesday, March 19, 2025 Wednesday, April 02, 2025 5.2 Date of Closing of the Offer Date of Payment of Consideration | Tuesday, April 08, 2025 Details of the Acquisition Proposed in the Offer Document **Particulars** (Assuming full acceptance in this Offer)

Actuals Offer Price ₹175.00/-₹175.00/-Aggregate number of Equity Shares 70,400 1,30,000 Aggregate number of Equity Shares 1,30,000 70,400 accepted Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied ₹2,27,50,000.00/-₹1,23,20,000.00/by Offer Price per Equity Share) 7.5 | Shareholding of the Acquirers before the Share Subscription Agreement/ Public Announcement Number of Equity Shares Nil % of fully diluted Equity Share capital Not Applicable Not Applicable 7.6 | Sale Shares proposed to be acquired by way of Share Purchase Agreement with the Selling Promoter Shareholder Number of Equity Shares % of fully diluted Equity Share capital Sale Shares proposed to be acquired by way of Share Purchase Agreement with the Selling Public Shareholder Number of Equity Shares % of fully diluted Equity Share capital 20.00% 20.00% 7.8 Equity Shares acquired by way of Offer Number of Equity Shares 1.30,000 70,400 % of fully diluted Equity Share capital 14.08% 26.00% 7.9 Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement Number of Equity Shares acquired Nil Price of the Equity Shares acquired Not Applicable Not Applicable % of Equity Shares acquired Not Applicable Not Applicable Post-Offer shareholding of the Acquirers Number of Equity Shares 3,75,500 3,15,900 % of fully diluted Equity Share capital 75.10% 63.18%

% of fully diluted Equity Share capital 50.54% 50.54% 24.54% The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer Public Announcement and for their obligations specified

Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders (other than Acquirers and the other Selling Public Shareholder)

Post-Offer

1,22,700

under SEBI (SAST) Regulations. The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ('SEBI (LODR) Regulations').

10. A copy of this Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in. BSE Limited at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

SWARAJ

Place: Mumbai

Particulars

Number of Equity Shares

Swaraj Shares and Securities Private Limited

Unit No 304, A Wing, 215 Atnum, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai - 400093, Maharashtra, India Telephone Number: +91-22-69649999

Pre-Offer

2,52,700

Email Address: takeover@swarajshares.com

Investors Grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com Website: www.swarajshares.com

Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM00012980 Date: Wednesday, April 16, 2025

On Behalf of the Acquirers Mr. Abhinath Manikrao Shinde

Acquirer

Post-Offer

1,82,300

Pre-Offer

2,52,700

epaper.jansatta.com